



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1945 (श10)

(सं0 पटना 127) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 जनवरी 2024

सं० 1स्था०-08/2024-226/वि०स०।—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु मूल कोटि की वरीयता के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग के निम्नांकित अवर सचिव को उप सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री संजीव कुमार	अवर सचिव
2.	श्रीमती अनुपमा प्रसाद	अवर सचिव
3.	श्रीमती पूनम सिन्हा	अवर सचिव
4.	श्री मो० शमीम अहमद	अवर सचिव

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्वधीन है ।
- उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप सचिव (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है ।
- उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।

5. विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्रवाई के लंबित होने अथवा दंड के प्रभाव के कारण वरीयता क्रम में ऊपर होने के बावजूद जो उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, उनसे कनीय को इस शर्त पर इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित प्रभार दिया जाएगा कि यदि उनसे वरीय पदाधिकारी के विरुद्ध चल रहे विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्रवाई अथवा दंड एवं अन्य कारणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तब वैसी स्थिति में वरीय को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा तथा कनीय को निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि एकमुस्त लौटा लिया जाएगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

असीम कुमार,

निदेशक ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 127-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>